



रेलवे भर्ती बोर्ड / RAILWAY RECRUITMENT BOARDS  
०५/२०२४ - एनटीपीसी स्नातक स्तर - CEN - 05/2024 - NTPC Graduate Level



Test Date	09/06/2025
Test Time	9:00 AM - 10:30 AM
Subject	RRB NTPC Graduate Level I

## \* Note

Correct Answer will carry 1 mark per Question.  
Incorrect Answer will carry 1/3 Negative mark per Question.

- Options shown in green color with a tick icon are correct.
- Chosen option on the right of the question indicates the option selected by the candidate.

## Section : RRB NTPC Graduate Level I

Q.1 पहाड़ी क्षेत्रों में ढलानों को सीढ़ीनुमा काटकर, किस प्रकार की खेती की जाती है?

- Ans  1. वेदिका खेती  
 2. विस्तीर्ण खेती  
 3. आर्द्रभूमि खेती  
 4. मिश्रित खेती

Q.2 पुरुष भांगड़ा के महिला समकक्ष को \_\_\_\_\_ कहा जाता है।

- Ans  1. कालबेलिया  
 2. घूमर  
 3. गरबा  
 4. गिद्दा

Q.3 एक म्यूजिक सेट की मूल कीमत ₹8,000 है। उसकी कीमत में 12% की कमी की गई और फिर 25% की वृद्धि की गई। इसकी नई कीमत (₹ में) ज्ञात कीजिए।

- Ans  1. 8,300  
 2. 8,800  
 3. 9,300  
 4. 8,100

Q.4 यदि '+' और '-' को परस्पर बदल दिया जाए तथा 'x' और '÷' को परस्पर बदल दिया जाए, निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?

$$36 \div 15 - 175 \times 5 + 11 = ?$$

- Ans  1. 524  
 2. 464  
 3. 564  
 4. 484

# Test Prime

ALL EXAMS,  
ONE SUBSCRIPTION



**70,000+**  
Mock Tests



Personalised  
Report Card



Unlimited  
Re-Attempt



**600+**  
Exam Covered



Previous Year  
Papers



**500%**  
Refund



**ATTEMPT FREE MOCK NOW**

Q.5 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, तब कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं।

कथन:

सभी जैम, बैड हैं।  
सभी बैड, बोरे हैं।  
कोई भी बोरा, कैन नहीं है।

निष्कर्ष:

(I) कोई भी जैम, कैन नहीं है।  
(II) कुछ बोरे, जैम हैं।

- Ans
- 1. न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है।
  - 2. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है।
  - 3. निष्कर्ष (I) और (II) दोनों अनुसरण करते हैं।
  - 4. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है।

Q.6 A, B और C का औसत वजन 45 kg है। यदि A और B का औसत वजन 40 kg है तथा B और C का औसत वजन 42 kg है, तो B का वजन (kg में) ..... है।

- Ans
- 1. 19
  - 2. 29
  - 3. 39
  - 4. 44

Q.7 X,  $A^2$  के अनुक्रमानुपाती है और A, Y के व्युत्क्रमानुपाती है। यदि Y का मान 6 होने पर X का मान 97 होता है, तो Y का मान 2 होने पर X का मान ज्ञात कीजिए।

- Ans
- 1. 871
  - 2. 873
  - 3. 872
  - 4. 875

Q.8 A, दो स्टेशनों के बीच रेलवे ट्रैक 8 दिनों में बिछा सकता है और B उसी कार्य को 24 दिनों में कर सकता है। C की सहायता से वे उस कार्य को 3 दिनों में कर सकते हैं। C अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है?

- Ans
- 1. 8 दिन
  - 2. 7 दिन
  - 3. 9 दिन
  - 4. 6 दिन

Q.9 मार्च 2025 में, नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स को उनके अंतरिक्ष मिशन से स्पेसX कैप्सूल पर सवार करके पृथ्वी पर वापस लाया गया। उन्होंने अंतरिक्ष में कितना समय बिताया था?

- Ans
- 1. 578 दिन
  - 2. 502 दिन
  - 3. 212 दिन
  - 4. 608 दिन

Q.10 एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 10 : 17 : 14 है, तथा इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल  $1096 \text{ cm}^2$  है। घनाभ की लंबाई (cm में) ज्ञात कीजिए।

- Ans
- 1. 5
  - 2. 10
  - 3. 1
  - 4. 17

Q.11 दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिह्न (?) के स्थान पर आ सकती है।  
29 33 41 53 ? 89 113

- Ans
- 1. 71
  - 2. 79
  - 3. 63
  - 4. 69

Q.12 निम्नलिखित में से कौन-से कथन 2024 के जम्मू और कश्मीर विधानसभा चुनाव के परिणामों को सटीक रूप से दर्शाते हैं?

1. कांग्रेस-जेकेएनसी गठबंधन ने 48 सीटों के साथ बहुमत हासिल किया।
2. भाजपा 29 सीटों के साथ सबसे बड़ी एकल पार्टी बनकर उभरी।
3. हाल ही में, संपन्न हुए लोकसभा चुनाव की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाते हुए, 63.88% मतदान दर्ज किया गया।
4. नव निर्वाचित विधानसभा के पास अन्य भारतीय राज्यों के समान पूर्ण विधायी शक्तियाँ होती हैं।

- Ans
- 1. केवल 2 और 4
  - 2. केवल 1, 3 और 4
  - 3. केवल 1 और 3
  - 4. केवल 1, 2 और 3

Q.13 अंडमान द्वीप समूह में अपने घर को संदर्भित करने के लिए जारवा जनजाति किस नाम का उपयोग करती है?

- Ans
- 1. रंगबैंग (Rangbang)
  - 2. मोरंग (Morung)
  - 3. चड्ढास (Chaddhas)
  - 4. गिटिओरा (Gitiora)

Q.14 मार्च 2025 में, नीति (NITI) आयोग ने 'फ्यूचर फ्रंट: क्वार्टरली फ्रंटियर टेक इनसाइट्स' रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट का मुख्य फोकस क्या है?

- Ans
- 1. भारत की कृषि उत्पादकता प्रवृत्तियों का आकलन
  - 2. क्वॉन्टम कंप्यूटिंग प्रौद्योगिकियों में प्रगति और निवेश का मूल्यांकन
  - 3. तटीय क्षेत्रों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का विश्लेषण
  - 4. राज्य द्वारा संचालित स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमों के प्रदर्शन की समीक्षा

Q.15 2025 तक भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का विकास करने के लिए लक्षित लंबाई कितनी है?

- Ans
- 1. 2 लाख किलोमीटर
  - 2. 2.5 लाख किलोमीटर
  - 3. 1.5 लाख किलोमीटर
  - 4. 1 लाख किलोमीटर

Q.16 भारत का निम्नलिखित में से कौन-सा बैंक, वर्ष 2025 में अपनी 90वीं वर्षगांठ मनाएगा?

- Ans
- 1. पंजाब नेशनल बैंक
  - 2. इंडियन बैंक
  - 3. भारतीय स्टेट बैंक
  - 4. भारतीय रिजर्व बैंक

Q.17 दिए गए विकल्पों में से किस अक्षर-समूह द्वारा # और % को प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए जिससे कि :: के बाईं ओर वाले अक्षर-समूह युग्म के बीच का पैटर्न और संबंध :: के दाईं ओर वाले अक्षर-समूह युग्म के बीच के पैटर्न और संबंध के समान हो?

# : QYE :: BHP : %

- Ans
- 1. # = GEU, % = RNF
  - 2. # = WKK, % = LBZ
  - 3. # = RNF, % = WKK
  - 4. # = LBZ, % = GEU

Q.18 दी गई श्रृंखला में प्रश्नचिह्न (?) के स्थान पर क्या आना चाहिए?

401 400 397 392 385 ?

- Ans
- 1. 372
  - 2. 376
  - 3. 375
  - 4. 374

Q.19 सीमा और दर्शन की आय का अनुपात 7 : 8 है। वे क्रमशः ₹15,000 और ₹9,000 की बचत करते हैं। यदि उनके व्यय का अनुपात 11 : 16 है, तो सीमा और दर्शन का कुल व्यय (₹ में) ज्ञात कीजिए।

- Ans
- 1. 68,000
  - 2. 64,000
  - 3. 64,125
  - 4. 63,000

Q.20 यदि '-' का अर्थ '÷' है, '÷' का अर्थ '×' है, '×' का अर्थ '+' है और '+' का अर्थ '-' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नचिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?

$5 \times 39 \div 1407 - 3 + 11562 = ?$

- Ans
- 1. 9074
  - 2. 6734
  - 3. 3426
  - 4. 1120

Q.21 8.27272... का तुल्य भिन्न ज्ञात कीजिए।

- Ans
- 1.  $\frac{83}{12}$
  - 2.  $\frac{89}{8}$
  - 3.  $\frac{84}{17}$
  - 4.  $\frac{91}{11}$

Q.22 कविश अपनी कक्षा में शीर्ष से 38वें स्थान पर तथा नीचे से 15वें स्थान पर है। उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं?

- Ans
- 1. 51
  - 2. 52
  - 3. 50
  - 4. 53

Q.23 CO<sub>2</sub> के 2 मोल में कितने अणु मौजूद होते हैं?

- Ans
- 1.  $1.2044 \times 10^{24}$
  - 2.  $12.044 \times 10^{23}$
  - 3.  $6.022 \times 10^{23}$
  - 4.  $3.011 \times 10^{23}$

Q.24 भारत में, कौन-सा भूभाग गैर-जलोढ़ परिक्षेत्र के कारण नलकूप सिंचाई के लिए उपयुक्त नहीं है?

- Ans
- 1. पंजाब
  - 2. पठारी क्षेत्र
  - 3. पश्चिमी उत्तर प्रदेश
  - 4. तटीय मैदान

Q.25 मानक CD-ROM ड्राइव में उपयोग किए जाने वाले लेजर की तरंगदैर्घ्य और प्रकार क्या हैं?

- Ans
- 1. 650 nm; रेड लेजर
  - 2. 400 nm; ब्लू लेजर
  - 3. 780 nm; इंफ्रारेड लेजर
  - 4. 850 nm; नियर-इंफ्रारेड लेजर

Q.26 F, G, H, I, J, K और X एक गोल मेज के परितः केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। H, F के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है। H के बाईं ओर से गिनती करने पर H और G के बीच केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं। X, F के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। I, K के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है। K के बाईं ओर से गिनती करने पर J और K के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं?

- Ans
- 1. चार
  - 2. दो
  - 3. तीन
  - 4. एक

Q.27 निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में स्वर संगीत (vocal music) का उपयोग नहीं किया जाता है?

- Ans
- 1. ओडिसी
  - 2. छऊ
  - 3. कथक
  - 4. भरतनाट्यम

Q.28 निम्नलिखित संख्या और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए।  
गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए।

(बाएं) 4 6 & 8 \$ 7 & 3 9 # % 4 6 @ £ 5 Ω 9 # 1 \* 7 (दाएं)

ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद में एक अन्य संख्या है?

- Ans
- 1. तीन
  - 2. चार
  - 3. दो
  - 4. एक

Q.29 A, B, C, D, E और F एक ही इमारत के छह अलग-अलग तलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे निचले तल का क्रमांक 1 है, उसके ठीक ऊपर वाले तल का क्रमांक 2 है और इसी प्रकार सबसे ऊपरी तल का क्रमांक 6 है।  
F और D जिन तलों पर रहते हैं, उनका गुणफल 15 है। E, C के ठीक ऊपर वाले तल पर रहता है। A और D जिन तलों पर रहते हैं, उनका योगफल 7 है।  
A और E जिन तलों पर रहते हैं, उनका योगफल कितना है?

- Ans
- 1. 8
  - 2. 6
  - 3. 7
  - 4. 5

Q.30 निम्नलिखित में से कौन-सा अक्षर-संख्या समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर रखे जाने से श्रृंखला तार्किक रूप से पूर्ण हो जाएगी?

NQ31, MP40, LO49, KN58, ?

- Ans
- 1. JN67
  - 2. JM66
  - 3. JN66
  - 4. JM67

Q.31 एक व्यक्ति अपनी आय का 40% बचाता है। यदि उसका व्यय ₹960 है, तो उसकी आय (₹ में) कितनी होगी?

- Ans
- 1. 1,640
  - 2. 1,600
  - 3. 576
  - 4. 384

Q.32 एक निश्चित कूट भाषा में, 'FUSE' को '3517' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'SING' को '2458' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'S' के लिए कूट क्या होगा?

- Ans
- 1. 1
  - 2. 8
  - 3. 2
  - 4. 5

Q.33 नए जोड़े गए क्षेत्रों (territories) में लोगों की नागरिकता का निर्णय कौन-सा प्राधिकरण करता है?

- Ans
- 1. निर्वाचन आयोग
  - 2. सर्वोच्च न्यायालय
  - 3. राज्य सरकार
  - 4. केंद्र सरकार

Q.34 फ़ाइलों को व्यवस्थित करते समय सबफ़ोल्डर्स बनाने का क्या उद्देश्य है?

- Ans
- 1. फ़ाइल का आकार कम करना
  - 2. फ़ाइल एक्सटेंशन बदलना
  - 3. क्लाउड में फ़ाइलों का स्वचालित रूप से बैकअप लेना
  - 4. बेहतर प्रबंधन के लिए संबंधित फ़ाइलों को एक साथ समूहीकृत करना

Q.35 निम्नलिखित त्रिकों में, अक्षरों का प्रत्येक समूह एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए अगले समूह से संबंधित है। दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो समान तर्क का अनुसरण करता हो।

BAIL - ALIB - LIAB  
DEAF - EFAD - FAED

- Ans
- 1. LEAN - ELAN - NEAL
  - 2. BOLD - ODLB - DLOB
  - 3. MEAN - MAEN - NAEM
  - 4. GOLD - ODLG - LGOD

Q.36 उस त्रिक का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए दो त्रिकों के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। दोनों त्रिक समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं।

KF-MH-OQ  
ID-KF-MO

- Ans
- 1. HB-IC-KN
  - 2. GB-ID-KM
  - 3. GB-ID-KN
  - 4. HB-ID-KN

Q.37 किस भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कोई संशोधन नहीं किया है?

- Ans
- 1. 42<sup>वाँ</sup> संशोधन अधिनियम
  - 2. 97<sup>वाँ</sup> संशोधन अधिनियम
  - 3. 48<sup>वाँ</sup> संशोधन अधिनियम
  - 4. 86<sup>वाँ</sup> संशोधन अधिनियम

Q.38 नवीनतम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण - 5 (2019-21) के अनुसार भारत में कुल प्रजनन दर (TFR) कितनी थी?

- Ans
- 1. 2.1
  - 2. 2.3
  - 3. 2.0
  - 4. 2.2

Q.39 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आना चाहिए?

NTZ LRX JPV HNT ?

- Ans
- 1. RLF
  - 2. FLR
  - 3. RFL
  - 4. FRL

Q.40 एक दुकानदार ने अपने सामान पर क्रय मूल्य से X% अधिक मूल्य अंकित किया तथा उसे 10% की छूट पर बेच दिया। यदि उसे 71% का लाभ हुआ, तो X का मान ज्ञात कीजिए।

- Ans
- 1. 90
  - 2. 89
  - 3. 92
  - 4. 91



Q.41 कुछ कंचों को चार बॉक्सों A, B, C और D में 6 : 3 : 7 : 5 के अनुपात में पैक किया जाना है। यदि बॉक्स B में बॉक्स D से 400 कंचे कम हैं, तो सभी बॉक्सों में कुल कितने कंचे हैं?

- Ans
- 1. 4100
  - 2. 4200
  - 3. 4000
  - 4. 3900

Q.42 नवंबर 2024 में, आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाया गया?

- Ans
- 1. जनजातीय गौरव दिवस
  - 2. आदिवासी स्वतंत्रता दिवस
  - 3. वनवासी दिवस
  - 4. आदिवासी स्वाभिमान दिवस

Q.43 71वें संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा आठवीं अनुसूची में कौन-सी भाषाएँ जोड़ी गईं?

- Ans
- 1. सिंधी, तमिल और उर्दू
  - 2. बोडो, संथाली और मैथिली
  - 3. कन्नड़, तेलुगु और मराठी
  - 4. कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली

Q.44 दो समरूप त्रिभुजों की दो संगत भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात 15 : 14 है। इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात (उल्लिखित क्रम में) ज्ञात कीजिए।

- Ans
- 1. 226 : 197
  - 2. 15 : 14
  - 3. 225 : 196
  - 4.  $15\sqrt{15} : 14$

Q.45 अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में कौन-सा देश स्थित है?

- Ans
- 1. चीन
  - 2. भूटान
  - 3. म्यांमार
  - 4. बांग्लादेश

Q.46  $5m^2 + 18m + 16 = 0$  के मूल ज्ञात कीजिए।

- Ans
- 1.  $\frac{8}{5}$  और  $-4$
  - 2.  $\frac{8}{5}$  और  $2$
  - 3.  $-\frac{8}{5}$  और  $-2$
  - 4.  $-\frac{8}{5}$  और  $4$

Q.47 ऋषि के पास ₹1,612 हैं। उन्होंने इसे अपने बेटों शान और पीयूष में बांट दिया और उन्हें इसे वार्षिक रूप से संयोजित होने वाली 8% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश करने को कहा। यह देखा गया कि शान और पीयूष को क्रमशः 19 और 20 वर्ष बाद समान राशि प्राप्त हुई। ऋषि ने शान को कितनी राशि (₹ में) दी थी?

- Ans
- 1. ₹775
  - 2. ₹837
  - 3. ₹875
  - 4. ₹687

Q.48 निम्नलिखित संख्या-प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए।  
गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए।

(बाएं)  $7 * \text{£} 5 8 \$ 7 3 * 9 \& \% 4 6 @ 9 \# 1 \& 3 \Omega$  (दाएं)

ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद में एक संख्या है?

- Ans
- 1. दो
  - 2. चार
  - 3. एक
  - 4. तीन

Q.49  $81 + \frac{76}{2} + 42 - 86$  को सरलीकृत कीजिए।

- Ans
- 1. 81
  - 2. 75
  - 3. 85
  - 4. 72

Q.50 यदि  $x - \frac{1}{x} = 3$  है, तो  $x^4 + \frac{1}{x^4}$  का मान ज्ञात कीजिए।

- Ans
- 1. 119
  - 2. 176
  - 3. 19
  - 4. 196

Q.51 उस समूह का चयन कीजिए जिसमें संख्याएँ उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समूह की संख्याएँ संबंधित हैं।  
(नोट: संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, संक्रियाएँ पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए।  
उदाहरण के लिए 13 लीजिए - 13 पर संक्रियाएँ जैसे 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना किया जा सकता है।  
13 को 1 और 3 में तोड़ना तथा फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएँ करने की अनुमति नहीं है।)

(33, 429, 13)  
(44, 220, 5)

- Ans
- 1. (43, 903, 21)
  - 2. (30, 363, 12)
  - 3. (20, 363, 18)
  - 4. (4, 23, 5)

Q.52 यदि संख्या 5673128 में प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए तथा प्रत्येक सम अंक में से 2 घटाया जाए, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बायें से तीसरे अंक तथा दायें से दूसरे अंक के मध्य क्या अंतर होगा?

- Ans
- 1. 8
  - 2. 7
  - 3. 9
  - 4. 6

Q.53 विजय का वेतन पहले 16% घटाया गया और बाद में 11% बढ़ा दिया गया। उसका अंतिम वेतन उसके आरंभिक वेतन की तुलना में कितने प्रतिशत कम था?

- Ans
- 1. 16%
  - 2. 11%
  - 3. 1.76%
  - 4. 6.76%

Q.54 पानी की एक टंकी को समान क्षमता के 23 पाइपों का उपयोग करके 29 मिनट में भरा जा सकता है। यदि हम बताए गए समान क्षमता के 47 पाइपों का उपयोग करते हैं, तो पानी की टंकी कितने मिनट (दो दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित) में भर जाएगी?

- Ans
- 1. 24.44
  - 2. 14.19
  - 3. 21.97
  - 4. 17.43

Q.55 प्रकेश बिंदु A से ड्राइव करना शुरू करता है और दक्षिण की ओर 11 km ड्राइव करता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 7 km ड्राइव करता है, फिर दाएं मुड़ता है और 13 km ड्राइव करता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 9 km ड्राइव करता है। वह अंतिम बार दाएं मुड़ता है, और 2 km ड्राइव करके बिंदु P पर रुक जाता है। बिंदु A पर पुनः पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर (न्यूनतम दूरी) और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए? (जब तक निर्दिष्ट न किया जाए, सभी मोड़ केवल 90 डिग्री के मोड़ हैं।)

- Ans
- 1. 2 km, पश्चिम की ओर
  - 2. 2 km, पूर्व की ओर
  - 3. 3 km, पश्चिम की ओर
  - 4. 1 km, पश्चिम की ओर

Q.56 कपिल बिंदु A से ड्राइव करना शुरू करता है और पश्चिम की ओर 9 km ड्राइव करता है। फिर वह दाएं मुड़ता है, और 1 km ड्राइव करता है, फिर दाएं मुड़ता है और 5 km ड्राइव करता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 3 km ड्राइव करता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 5 km ड्राइव करता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 8 km ड्राइव करता है। वह अंत में दाएं मुड़ता है और 9 km ड्राइव करके बिंदु P पर रुक जाता है। बिंदु A तक पुनः पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर (न्यूनतम दूरी) और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए (जब तक कि निर्दिष्ट न हो, सभी मोड़ केवल 90° के मोड़ हैं)?

- Ans
- 1. 12 km, दक्षिण
  - 2. 12 km, उत्तर
  - 3. 11 km, उत्तर
  - 4. 10 km, दक्षिण

Q.57 एक निश्चित कूट भाषा में, 'how are you' को 'jp zl rc' के रूप में कूटबद्ध किया गया है और 'are they coming' को 'zl qn bt' के रूप में कूटबद्ध किया गया है। दी गई भाषा में 'are' को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा?

- Ans
- 1. qn
  - 2. zl
  - 3. jp
  - 4. bt

Q.58 अपने एक प्रसिद्ध कार्य में, याह्या बिन अहमद सरहिंदी (Yahya bin Ahmad Sirhindi) ने दावा किया है कि \_\_\_\_\_ के संस्थापक पैगंबर के वंशज थे।

- Ans
- 1. गज़नवी राजवंश
  - 2. गुरीद राजवंश
  - 3. तुगलक राजवंश
  - 4. सैय्यद राजवंश

Q.59 चुआर विद्रोह, जो साधारण किसानों और वंशानुगत श्रमिकों की आर्थिक शिकायतों की परिणति के रूप में उभरा, निम्नलिखित में से किस वर्ष के दौरान अपने चरम पर पहुंच गया था?

- Ans
- 1. 1901-02
  - 2. 1710-11
  - 3. 1857-58
  - 4. 1798-99

Q.60 अंडमान और निकोबार प्रशासन के अनुसार, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुल कितने द्वीप/उपद्वीप/चट्टानी दृश्यांश हैं?

- Ans  1. 836  
 2. 1002  
 3. 742  
 4. 612

Q.61 बबीता एक निश्चित दूरी 11 km/hr की चाल से तय करती है और पहले की दूरी की दोगुनी दूरी 44 km/hr की चाल से तय करती है। फिर वह उसी मार्ग से आरंभिक बिंदु पर लौटती है। यदि पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल 34 km/hr है, तो वापसी यात्रा के लिए उसकी चाल (km/hr में) कितनी है?

- Ans  1. 74.8  
 2. 76.8  
 3. 70  
 4. 79

Q.62  $3 + \tan^2 \theta + \cot^2 \theta - \sec^2 \theta \operatorname{cosec}^2 \theta$  का मान ज्ञात कीजिए।

- Ans  1. 0  
 2. 1  
 3. 2  
 4. -1

Q.63 2025 की शुरुआत में, ऑन्कोसर्सियासिस (रिवर ब्लाइंडनेस) को समाप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन-सा देश, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा मान्यता प्राप्त करने वाला अफ्रीका का प्रथम देश बना?

- Ans  1. बोत्सवाना (Botswana)  
 2. इटली (Italy)  
 3. दक्षिण अफ्रीका (South Africa)  
 4. नाइजर (Niger)

Q.64 एक नया उत्परिवर्तन, प्लाज़्मोडियम फैल्सिपेरम (*Plasmodium falciparum*) को खंडजाणुओं (मीरोजॉइट) में परिपक्वण के बिना यकृत से बाहर निकलने की सुविधा देता है। इसका तात्कालिक परिणाम क्या होगा?

- Ans  1. RBC संविदार की अनुपस्थिति और नैदानिक लक्षणों में कमी  
 2. रोग की गंभीरता में वृद्धि  
 3. तत्काल प्रतिरक्षा अनुक्रिया और समाशोधन  
 4. ऐल्वियोली (alveoli) का प्रत्यक्ष संक्रमण

Q.65 गुप्त अभिलेखों में वर्णित 'तिरभुक्ति' वर्तमान \_\_\_\_\_ के अनुरूप है।

- Ans  1. ओडिशा  
 2. बिहार  
 3. मध्य प्रदेश  
 4. बंगाल

Q.66 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूह युग्मों में से तीन एक निश्चित तरीके से समान हैं और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह युग्म उस ग्रुप से संबंधित नहीं है? (नोट: असंगत अक्षर-समूह युग्म, उसमें व्यंजनो/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

- Ans  1. CG - LP  
 2. MO - KM  
 3. QS - OQ  
 4. SU - QS

Q.67 यदि 30 cm ऊँचाई वाले एक लम्ब वृत्तीय शंकु का आयतन  $160\pi \text{ cm}^3$  है, तो इसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए।

- Ans
- 1. 7 cm
  - 2. 13 cm
  - 3. 8 cm
  - 4. 16 cm

Q.68 अधिकांश आधुनिक ऑपरेटिंग सिस्टम में Alt + Tab का प्राथमिक कार्य क्या है?

- Ans
- 1. खुले हुए एप्लीकेशन्स के बीच स्विच करना
  - 2. टास्क मैनेजर को सीधे ओपन करना
  - 3. वर्तमान एप्लीकेशन में एक नया टैब खोलना
  - 4. एक्टिव विंडो को मिनिमाइज़ करना

Q.69 राज्य सहकारी समिति अधिनियमों में परिवर्तन क्यों किया गया?

- Ans
- 1. समितियों की सीमित संख्या
  - 2. राजनीतिक हित
  - 3. कार्यपद्धति की खराब गुणवत्ता
  - 4. करों में वृद्धि

Q.70 माना जाता है कि अंग्रेजों के खिलाफ पहला सशस्त्र आदिवासी विद्रोह \_\_\_\_\_ में हुआ था।

- Ans
- 1. 1800
  - 2. 1795
  - 3. 1768
  - 4. 1784

Q.71 निम्नलिखित बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए।

अंक	14	26	44	61	84
विद्यार्थियों की संख्या	91	78	95	36	98

- Ans
- 1. 69
  - 2. 45
  - 3. 54
  - 4. 46

Q.72 54 km की दूरी तय करते समय, एक व्यक्ति ने देखा कि 1 घंटा 15 मिनट तक साइकिल चलाने के बाद, उसके द्वारा तय की गई दूरी, शेष दूरी की  $\frac{7}{9}$  थी। उसकी चाल (km/hr में) कितनी थी?

- Ans
- 1. 19.5
  - 2. 18.9
  - 3. 19.9
  - 4. 18.7

Q.73 निम्नलिखित में से कौन-सा भारत सरकार की अवसंरचना पहलों के अंतर्गत योजनाबद्ध औद्योगिक गलियारा नहीं है?

- Ans
- 1. दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा
  - 2. कोलकाता-लखनऊ औद्योगिक गलियारा
  - 3. विजाग-चेन्नई औद्योगिक गलियारा
  - 4. चेन्नई-बेंगलुरु औद्योगिक गलियारा

Q.74 राकेश ₹5,000 की राशि और शिवम ₹9,000 की राशि, वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर निवेश करते हैं। यदि 3 वर्ष के अंत में, शिवम को राकेश से ₹360 अधिक ब्याज मिलता है, तो वार्षिक ब्याज की दर (प्रतिशत में) ज्ञात कीजिए।

- Ans
- 1. 2%
  - 2. 3%
  - 3. 5%
  - 4. 1%

Q.75 जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में कौन-सा देश समग्र रूप से सर्वोच्च स्थान पर है?

- Ans
- 1. डेनमार्क
  - 2. जर्मनी
  - 3. स्वीडन
  - 4. फ्रांस

Q.76 यदि माता की वर्तमान आयु का 3 गुना उसकी पुत्री की आयु के 5 गुने से 36 वर्ष अधिक है, और पुत्री की आयु का 3 गुना माता की आयु से 4 वर्ष कम है, तो माता और पुत्री की वर्तमान आयु के बीच अंतर (वर्ष में) कितना है?

- Ans
- 1. 20
  - 2. 13
  - 3. 18
  - 4. 16

Q.77 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित, निम्नलिखित चार अक्षर-समूह युग्मों में से तीन एक निश्चित तरीके से समान हैं और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह युग्म उस ग्रुप से संबंधित नहीं है? (नोट: असंगत अक्षर समूह युग्म, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

- Ans
- 1. EH - BE
  - 2. RK - JH
  - 3. PS - MP
  - 4. GJ - DG

Q.78 एशिया और प्रशांत क्षेत्र में ग्रामीण विकास के लिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय निम्न में से किस संगठन के साथ मिल कर कार्य करता है?

- Ans
- 1. अफ्रीकी-एशियाई ग्रामीण विकास संगठन (AARDO)
  - 2. एशियाई विकास बैंक (ADB)
  - 3. एशिया और प्रशांत के लिए एकीकृत ग्रामीण विकास केंद्र (CIRDAP)
  - 4. विश्व बैंक

Q.79 M, N, O, P, Y और Z एक ही इमारत के छह अलग-अलग तलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे निचले तल का क्रमांक 1 है, उसके ऊपर के तल का क्रमांक 2 है और इसी प्रकार सबसे ऊपरी तल का क्रमांक 6 है। N के ऊपर केवल M रहता है। Z, N के ठीक नीचे रहता है। O के नीचे केवल P रहता है। तल क्रमांक 3 पर कौन रहता है?

- Ans
- 1. Z
  - 2. O
  - 3. Y
  - 4. M

Q.80 दीपेश के पास 168 लीटर तेल A और 234 लीटर तेल B है। वह कई समान कंटेनरों को दोनों प्रकार के तेल से इस प्रकार भरता है कि प्रत्येक कंटेनर में केवल एक प्रकार का तेल होता है, और सभी कंटेनर पूरी तरह से भरे होते हैं। दीपेश द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रत्येक कंटेनर का अधिकतम आयतन (लीटर में) कितना हो सकता है, जिससे कि दीपेश के पास मौजूद दोनों प्रकार के तेल को इन कंटेनरों में भरा जा सके?

- Ans
- 1. 10
  - 2. 5
  - 3. 14
  - 4. 6

Q.81 एक सम बहुभुज के लिए, अंतः कोणों का योगफल उसके बाह्य कोणों के योगफल से 250% अधिक है। बहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण की माप  $x^\circ$  है।  $x$  का मान ज्ञात कीजिए।

- Ans
- 1. 120
  - 2. 150
  - 3. 145
  - 4. 140

Q.82 संख्याओं/प्रतीकों के एक समूह को नीचे दिए गए कूट और उसके बाद आने वाली शर्तों के अनुसार अक्षर कूट का उपयोग करके कूटबद्ध किया गया है। यदि कोई भी शर्त लागू नहीं होती है, तो संबंधित संख्या/प्रतीक के लिए कूट सीधे तालिका में दिए गए अनुसार दिए जाने चाहिए।

संख्या/ प्रतीक	8	9	@	&	5	7	2	%	1	3	$\Delta$	4	6
कूट	L	C	Z	N	D	W	A	P	R	T	F	B	K

शर्तें:

- (i) यदि पहला घटक एक प्रतीक है और अंतिम घटक एक संख्या है, तो इन दोनों (पहले और अंतिम घटक) के कूट परस्पर बदल दिए जाने चाहिए।
- (ii) यदि पहला घटक एक विषम संख्या है और अंतिम घटक एक सम संख्या है, तो पहले और अंतिम घटकों को  $\odot$  के रूप में कूटबद्ध किया जाना चाहिए।
- (iii) यदि दूसरा और तीसरा दोनों घटक पूर्ण वर्ग हैं, तो तीसरे घटक को दूसरे घटक के कूट के रूप में कूटबद्ध किया जाना चाहिए।

निम्नलिखित समूह के लिए कूट क्या होगा?  
7 6 @ 1 3 &

- Ans
- 1. WKRZTN
  - 2. WKZRTN
  - 3. WKZRTW
  - 4. NKZRTN

Q.83 प्रेक्षणों 79, 92, 39, 57, 91, 28, 74, 90 और 44 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए।

- Ans
- 1. 59
  - 2. 61
  - 3. 66
  - 4. 71

Q.84 यह प्रश्न नीचे दी गई तीन अंकों वाली पाँच संख्याओं पर आधारित है।

(बाएं) 535 647 232 804 152 (दाएं)

(उदाहरण: 697 – पहला अंक = 6, दूसरा अंक = 9 और तीसरा अंक = 7)  
(नोट: सभी संक्रियाएँ बाएं से दाएं की जानी हैं)

यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक से घटाया जाए, तो परिणाम क्या होगा?

- Ans
- 1. 2
  - 2. 5
  - 3. 1
  - 4. 3

Q.85 2025 के प्रदर्शन के दौरान, DRDO के DEW Mk-II(A) द्वारा किस प्रकार के ड्रोन को सफलतापूर्वक नष्ट किया गया?

- Ans
- 1. हेलीकॉप्टर ड्रोन
  - 2. फिक्स्ड-विंग यूएवी और स्वार्म ड्रोन
  - 3. अंडरवाटर ड्रोन
  - 4. रेसिंग ड्रोन

Q.86 भोलानाथ सिंह निम्नलिखित में से किस विद्रोह/आंदोलन के लीडर थे?

- Ans
- 1. वहाबी आंदोलन
  - 2. संथाल विद्रोह
  - 3. फ़राज़ी आंदोलन
  - 4. तमार विद्रोह

Q.87 यदि संख्या 8271634 के प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए तथा प्रत्येक सम अंक में से 2 घटाया जाए, तो इस प्रकार बनने वाली नई संख्या में कितने अंक एक से अधिक बार आएंगे?

- Ans
- 1. एक
  - 2. एक भी नहीं
  - 3. दो
  - 4. तीन

Q.88 मार्च 2025 में, किस स्वास्थ्य उपलब्धि के स्मरण में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया?

- Ans
- 1. राष्ट्रीय वैक्स मिशन
  - 2. कोविड वैक्सीन के लॉन्च
  - 3. पल्स पोलियो की पहली खुराक
  - 4. पोलियो उन्मूलन अभियान

Q.89 P, Q, R, S, T, U और V एक गोल मेज के परितः केन्द्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। P के दाईं ओर से गिनने पर P और V के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। V और U के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। P और Q के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। R और U के बीच केवल दो लोग बैठे हैं। T और Q के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। S के बाईं ओर से गिनने पर S और P के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं?

- Ans
- 1. 0
  - 2. 3
  - 3. 2
  - 4. 5

Q.90 जापान के ओसाका में एक्सपो 2025 की थीम क्या थी?

- Ans
- 1. फीडिंग द प्लानेट, एनर्जी फॉर लाइफ (Feeding the Planet, Energy for Life)
  - 2. कनेक्टिंग माइंड्स, क्रिएटिंग द फ्यूचर (Connecting Minds, Creating the Future)
  - 3. बेटर सिटी, बेटर लाइफ (Better City, Better Life)
  - 4. डिजाइनिंग फ्यूचर सोसाइटी फॉर अवर लाइव्स (Designing Future Society for Our Lives)

Q.91 यदि माल ₹450 में खरीदा गया और  $\frac{1}{3}$  माल 10% की हानि पर बेचा गया, तो पूरे लेन-देन पर 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए शेष माल को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाना चाहिए?

- Ans
- 1. 35%
  - 2. 32%
  - 3. 28%
  - 4. 26%



Q.92 F, G का भाई है।  
G, H का पति है।  
H, I की पुत्री है।  
I, J की पत्नी है।  
F का J से क्या संबंध है?

- Ans
- 1. पिता
  - 2. पुत्री के पति का पिता
  - 3. भाई
  - 4. पुत्री के पति का भाई

Q.93  $17^3 - 10^2 + \left(\frac{26}{13}\right)^2 - 12 + 20 \times 12$  का मान ज्ञात कीजिए।

- Ans
- 1. 5045
  - 2. 5040
  - 3. 5055
  - 4. 5046

Q.94 निम्नलिखित में से किस अक्षर-समूह द्वारा # और % को प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए जिससे कि :: के बाईं ओर वाले अक्षर-समूह युग्म के बीच का पैटर्न और संबंध, :: के दाईं ओर वाले अक्षर-समूह युग्म के बीच के पैटर्न और संबंध के समान हो?

# : QVR :: CHD : %

- Ans
- 1. # = PMM, % = JUY
  - 2. # = GYT, % = NYU
  - 3. # = LJM, % = NHG
  - 4. # = LQM, % = HMI

Q.95 MS वर्ड में, कौन सा कमांड उपयोगकर्ताओं को टेक्स्ट के चयनित ब्लॉक की कॉपी बनाने और कॉपी को उसी डाक्युमेंट या किसी अन्य डाक्युमेंट में एक अलग स्थान पर रखने की सुविधा देता है?

- Ans
- 1. Paste Special
  - 2. Drag और Drop
  - 3. Cut
  - 4. Copy और Paste

Q.96 एक आदमी ने 8 शर्ट ₹550 प्रति शर्ट, 10 पैट ₹1,000 प्रति पैट और 12 जोड़ी जूते ₹850 प्रति जोड़ी की दर से खरीदे। प्रति वस्तु औसत व्यय कितना है?

- Ans
- 1. ₹826
  - 2. ₹820
  - 3. ₹840
  - 4. ₹836

Q.97 भारत में पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत की प्राथमिक भूमिका क्या है?

- Ans
- 1. प्रांतीय चुनाव आयोजित करना, चुनाव आयोग की सहायता करना
  - 2. शहरी अवसंरचना का प्रबंधन करना
  - 3. ग्राम स्वशासन के कार्यकारी निकाय के रूप में कार्य करना
  - 4. स्थानीय विवादों के लिए न्यायिक मंच के रूप में कार्य करना

Q.98 MS वर्ड में, कौन सा फीचर उपयोगकर्ताओं को डाक्युमेंट के मार्जिन को सेट करने की सुविधा देता है, जो टेक्स्ट और पेज के किनारों के बीच की जगह को प्रभावित करता है?

- Ans
- 1. पेज साइज
  - 2. पेज बॉर्डर
  - 3. पेज लेआउट
  - 4. मार्जिन

Q.99 कृत्रिम रूप से उत्पादित तत्वों के संदर्भ में कौन-सा कथन सही है?

- Ans
- 1. वे प्राकृतिक तत्वों की तरह स्थिर होते हैं।
  - 2. वे तालिका के सभी समूहों में पाए जाते हैं।
  - 3. वे अल्पकालिक होते हैं।
  - 4. वे दीर्घजीवी होते हैं।

Q.100 नवंबर 2024 में, भारत और सिंगापुर ने 'अग्नि वारियर 2024' नामक एक संयुक्त सैन्य अभ्यास किया। यह अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया था?

- Ans
- 1. पुलगांव, महाराष्ट्र
  - 2. बबीना, उत्तर प्रदेश
  - 3. जैसलमेर, राजस्थान
  - 4. देवलाही, महाराष्ट्र

